



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1944 (श10)

(सं0 पटना 744) पटना, वृहस्पतिवार, 15 सितम्बर, 2022

सं0 8/पी.3-10-06/2021 गृ0आ0-9229

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 9 सितम्बर, 2022

विषय :- राज्य आपदा रिस्पांस बल (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति हेतु बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक (सशस्त्र), 75 अवर निरीक्षक (सशस्त्र), 59 हेड कॉन्स्टेबल (ग्राउण्ड इयूटी/रेडियो ऑपरेटर), 14 हेड कॉन्स्टेबल/कॉन्स्टेबल (चालक) एवं 225 कॉन्स्टेबल सहित कुल-393 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

आपदाओं के समय त्वरित एवं प्रभावकारी ढंग से खोज, बचाव एवं राहत कार्य संचालित करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-698/आ०प्र०, दिनांक 16.03.2010 के द्वारा NDRF के पैटर्न पर राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स (SDRF) की एक बटालियन के गठन की स्वीकृति दी गयी है। बटालियन में 18 रिस्पांस टीमों का गठन करते हुए विभिन्न श्रेणी के कुल 1157 पदों का सृजन किया गया है।

2. राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स में विभिन्न श्रेणी के पदों पर सुयोग्य कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण इसके रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-4/पी. 3-10-02/2014 गृ०आ० 10083, दिनांक-08.12.2014 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों के विरुद्ध बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की संरचना में कुल 930 छाया पदों का सृजन किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार की अधियाचना के आलोक में उन्हें 05-05 वर्षों की प्रतिनियुक्ति पर राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स (SDRF) में भेजने का प्रावधान है।

3. आपदाओं के समय response time को minimize करने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जिला में SDRF की एक टीम को स्थाई रूप से प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लेते हुए राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प सं०-1987, दिनांक-24.07.2018 के माध्यम से राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स की एक बटालियन में पूर्व से प्रावधानित 18 टीमों को मिलाकर कुल 50 टीमों के गठन हेतु विभिन्न श्रेणी/रैंक में 571 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

SDRF में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत अतिरिक्त कुल 571 पद में से 393 पद हैं, जो लगभग समतुल्य नामों से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की संरचना में शामिल हैं :-

| क्र०सं० | राज्य आपदा रिस्पांस बल (SDRF) में स्वीकृत पद का नाम | पदों की संख्या | बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में समतुल्य नाम |
|--------------------|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | निरीक्षक (कार्यपालक) | 20 | निरीक्षक (सशस्त्र) |
| 2 | अवर निरीक्षक (कार्यपालक) | 75 | अवर निरीक्षक (सशस्त्र) |
| 3 | हेड कॉन्स्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी/रेडियो ऑपरेटर) | 59 | हेड कॉन्स्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी/रेडियो ऑपरेटर) |
| 4 | हेड कॉन्स्टेबल/कॉन्स्टेबल (वाहन-सह-मोटर बोट चालक) | 14 | हेड कॉन्स्टेबल/कॉन्स्टेबल (चालक) |
| 5 | कॉन्स्टेबल | 225 | कॉन्स्टेबल |
| कुल पदों की संख्या | | 393 | |

4. आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक-5238/आ०प्र०. दिनांक-21.12.2021 के आलोक में पुलिस महानिरीक्षक (मु०), बिहार, पटना का पत्रांक-22, दिनांक- 25.03.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव के आलोक में निम्नलिखित कुल 393 विभिन्न श्रेणी के अतिरिक्त पदों का स्तम्भ-5 में अंकित पे लेवल में सृजन किया जाता है, जिन्हें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के विभिन्न वाहिनियों में पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा वितरित किया जायेगा एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध पूर्व में प्रावधानित व्यवस्था के अनुरूप SDRF में इनकी प्रतिनियुक्ति की जायगी :-

| क्र०सं० | SDRF में स्वीकृत पद का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान | लेवल |
|--------------------|---|----------------|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | निरीक्षक (सशस्त्र) | 20 | 44900-142400 | 7 |
| 2 | अवर निरीक्षक (सशस्त्र) | 75 | 35400-112400 | 6 |
| 3 | हेड कॉन्स्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी/रेडियो ऑपरेटर) | 59 | 25500-81100 | 4 |
| 4 | हेड कॉन्स्टेबल/कॉन्स्टेबल (चालक) | 14 | 25500-81100 | 4 |
| 5 | कॉन्स्टेबल | 225 | 21700-69100 | 3 |
| कुल पदों की संख्या | | 393 | | |

5. उपरोक्त पदों के सृजन पर होने वाले आकलित आवर्तक वार्षिक व्यय रुपये- 22,79,23,690/- (बाईस करोड़ उनासी लाख तेईस हजार छः सौ नब्बे) मात्र है। इस आवर्तक व्यय का वहन मांग सं०-22, बजट शीर्ष 2055-पुलिस-लघु शीर्ष-104-विशेष पुलिस-उपशीर्ष-0002 -पैदल सैन्य पुलिस एवं विपत्र कोड सं०-एन०-2055001040002 के अंतर्गत विकलनीय होगा। इस राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से किया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित वाहिनी के समादेष्टा होंगे।

(व्यय विवरणी संलग्न)

6. राज्य आपदा रिस्पांस बल (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति हेतु बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक (सशस्त्र), 75 अवर निरीक्षक (सशस्त्र), 59 हेड कॉन्स्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी/रेडियो ऑपरेटर), 14 हेड कॉन्स्टेबल/कॉन्स्टेबल (चालक) एवं 225 कॉन्स्टेबल सहित कुल-393 अतिरिक्त पदों का सृजन उपर्युक्त कडिका-4 में अंकित तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित पे लेवल में करने की स्वीकृति दी जाती है।

7. उपर्युक्त में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

राज्य आपदा रिस्पांस बल (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत अतिरिक्त 393 पदों को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सृजन हेतु प्रस्तावित छाया पदों की अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी ।

| क्र० सं० | पदनाम | श्रेणी | वेतनमान | वेतन स्तर | वेतन | महंगाई भत्ता (31%) | मकान किराया भत्ता (16%) | चिकित्सा भत्ता | राशन भत्ता |
|---------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | निरीक्षक (सशस्त्र) | 'ग' | 44900-142400 | 7 | 44900 | 13919 | 7194 | 1000 | 3000 |
| शहरी परिवहन भत्ता+ महंगाई भत्ता (31%) | | चालक भत्ता | प्रतिमाह व्यय (रूपये में) | वार्षिक व्यय (रूपये में) | अतिरिक्त 13 वें माह का वेतन महंगाई भत्ता के साथ | वर्दी भत्ता | पदों की संख्या | अनुमानित व्यय प्रतिवर्ष (रूपये में) | |
| K | | L | M | N | O | P | Q | R | |
| 3930 | | 0 | 73933 | 887196 | 58819 | 11000 | 20 | 19140300 | |

| क्र० सं० | पदनाम | श्रेणी | वेतनमान | वेतन स्तर | वेतन | महंगाई भत्ता (31%) | मकान किराया भत्ता (16%) | चिकित्सा भत्ता | राशन भत्ता |
|---------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2 | अवर निरीक्षक (सशस्त्र) | 'ग' | 35400-112400 | 6 | 35400 | 10974 | 5664 | 1000 | 3000 |
| शहरी परिवहन भत्ता+ महंगाई भत्ता (31%) | | चालक भत्ता | प्रतिमाह व्यय (रूपये में) | वार्षिक व्यय (रूपये में) | अतिरिक्त 13 वें माह का वेतन महंगाई भत्ता के साथ | वर्दी भत्ता | पदों की संख्या | अनुमानित व्यय प्रतिवर्ष (रूपये में) | |
| K | | L | M | N | O | P | Q | R | |
| 1965 | | 0 | 58003 | 696036 | 46374 | 11000 | 75 | 56505750 | |

| क्र० सं० | पदनाम | श्रेणी | वेतनमान | वेतन स्तर | वेतन | महंगाई भत्ता (31%) | मकान किराया भत्ता (16%) | चिकित्सा भत्ता | राशन भत्ता |
|---------------------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3 | हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी / रेडियो ऑपरेटर) | 'ग' | 25500-81100 | 4 | 25500 | 7905 | 4080 | 1000 | 3000 |
| शहरी परिवहन भत्ता+ महंगाई भत्ता (31%) | | चालक भत्ता | प्रतिमाह व्यय (रूपये में) | वार्षिक व्यय (रूपये में) | अतिरिक्त 13 वें माह का वेतन महंगाई भत्ता के साथ | वर्दी भत्ता | पदों की संख्या | अनुमानित व्यय प्रतिवर्ष (रूपये में) | |
| K | | L | M | N | O | P | Q | R | |
| 1965 | | 0 | 43450 | 521400 | 33405 | 10000 | 59 | 33323495 | |

| क्र० सं० | पदनाम | श्रेणी | वेतनमान | वेतन स्तर | वेतन | महंगाई भत्ता (31%) | मकान किराया भत्ता (16%) | चिकित्सा भत्ता | राशन भत्ता |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 4 | हेड कांस्टेबल / कॉन्स्टेबल (चालक) | 'ग' | 25500-81100 | 4 | 25500 | 7905 | 4080 | 1000 | 3000 |
| शहरी परिवहन भत्ता+ महंगाई भत्ता (31%) | | चालक भत्ता | प्रतिमाह व्यय (रूपये में) | वार्षिक व्यय (रूपये में) | अतिरिक्त 13 वें माह का वेतन महंगाई भत्ता के साथ | | वर्दी भत्ता | पदों की संख्या | अनुमानित व्यय प्रतिवर्ष (रूपये में) |
| K | | L | M | N | O | | P | Q | R |
| 1965 | | 1000 | 44450 | 533400 | 33405 | | 10000 | 14 | 8075270 |

| क्र० सं० | पदनाम | श्रेणी | वेतनमान | वेतन स्तर | वेतन | महंगाई भत्ता (31%) | मकान किराया भत्ता (16%) | चिकित्सा भत्ता | राशन भत्ता |
|---------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 5 | कांस्टेबल | 'ग' | 21700-69100 | 3 | 21700 | 6727 | 3472 | 1000 | 3000 |
| शहरी परिवहन भत्ता+ महंगाई भत्ता (31%) | | चालक भत्ता | प्रतिमाह व्यय (रूपये में) | वार्षिक व्यय (रूपये में) | अतिरिक्त 13 वें माह का वेतन महंगाई भत्ता के साथ | | वर्दी भत्ता | पदों की संख्या | अनुमानित व्यय प्रतिवर्ष (रूपये में) |
| K | | L | M | N | O | | P | Q | R |
| 1965 | | 0 | 37864 | 454368 | 28427 | | 10000 | 225 | 110878875 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|
| | | | | | | | | Q | R |
| कुल | | | | | | | | 393 | 227923690 |

नोट:— वाहन भत्ता 'शून्य' है। (कुल राशि बाईस करोड़ उनासी लाख तेईस हजार छः सौ नब्बे।)

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 744-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>